



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2018/भाद्र 7, 1940

No. 330]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018/BHADRA 7, 1940

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

फा.सं. 13016/01/2017-क्यू.ए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 45 के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (जिसे एतदपश्चात् एफ.एस.एस.ए.आई कहा गया है) एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों/विनियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार सहित खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है:

क्रम सं.	विश्लेषक का नाम और प्रयोगशाला का नाम
1.	सुश्री निधि गुप्ता, मेसर्स एवन फूड लैब प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
2.	श्री सतीश चन्द्र जोशी, मेसर्स चोकसी लैबोरेटरीज लिमिटेड, पंचकुला
3.	सुश्री रेनु सिंह, मेसर्स यूरोफिन एनालिटिकल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम
4.	सुश्री रीता सिंह, मेसर्स फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम

5.	श्री हरविन्दर सिंह मथारू मेसर्स इंटरस्टेलर टेस्टिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पंचकुला
6.	श्री गुलवीर चौधरी, मेसर्स नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड, गरुग्राम
7.	श्री बलवीर सिंह मेसर्स इडमा लैबोरेटरीज लिमिटेड, पंचकुला
8.	सुश्री रवनीत कौर सिद्धू, मेसर्स पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर, मोहाली
9.	श्री अमित अग्रवाल, मेसर्स पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर, मोहाली
10.	श्री प्रियेश हसमुख अमीन, मेसर्स एक्यूरेट लैबोरेटरी, अहमदाबाद
11.	श्री वी. आर. नरेंद्र, मेसर्स एनालाइटिकल एंड एनवायरनमेंटल सर्विसिज, वडोदा
12.	श्री के. ए. पटेल, मेसर्स एनालाइटिकल एंड एनवायरनमेंटल सर्विसिज, वडोदा
13.	श्री के. एन. गौतम, मेसर्स एनालाइटिकल एंड एनवायरनमेंटल सर्विसिज, वडोदा
14.	श्री हेमल रतीशभाई दर्जी, मेसर्स गुजरात लैबोरेटरी, अहमदाबाद
15.	डॉ. अशोक कुमार निकम, मेसर्स काली-लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल
16.	श्री प्रदीप कुमार तिवारी, मेसर्स क्यूटीटीएल लैब प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर
17.	डॉ. अपर्णा सुनील फरंदे, मेसर्स अश्वमेध इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स, नासिक
18.	श्री निनाद अरविंद सौंदनकर, मेसर्स अश्वमेध इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स, नासिक
19.	सुश्री अमृता रामचन्द्र सूतर, मेसर्स वी फार्मो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे
20.	श्री विपुल महेंद्रकुमार रावल, मेसर्स वी फार्मो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे
21.	श्री बाल शांताराम प्रभु, मेसर्स डॉक्टर्स एनालाइटिकल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
22.	सुश्री सुजाता जितेन्द्र चिवाते, मेसर्स एनवाइरोकेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
23.	श्री मीनल चेतन सतघरे, मेसर्स एकुइनोक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई

24.	श्री अनूप सिंह सेंगर, मेसर्स निर्यात निरीक्षण परिषद्, मुंबई
25.	श्री ई अरुल, मेसर्स निर्यात निरीक्षण परिषद्, मुंबई
26.	डॉ. प्रकाश चन्द्र गुप्ता, मेसर्स निर्यात निरीक्षण परिषद्, मुंबई
27.	श्रीमती सुषमा महेश थोरट, मेसर्स फूड हाइजीन एंड हेल्थ लैबोरेटरी, पुणे
28.	श्री राजेंद्र रामचन्द्र नायक, मेसर्स फूड हाइजीन एंड हेल्थ लैबोरेटरी, पुणे
29.	श्री दिग्विजय सबाजी सावंत, मेसर्स जियो-केम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
30.	श्री अभय रघुनाथ अग्निहोत्री, मेसर्स पुणे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन क्वालिटी एश्योरेंस लैबोरेटरी, पुणे
31.	श्री रवींद्र चिमन वैद्य, मेसर्स पुणे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन क्वालिटी एश्योरेंस लैबोरेटरी, पुणे
32.	श्री अरुण बी. सरजोशी, मेसर्स क्वालिकेम लैबोरेटरीज, नागपुर
33.	श्री ससीकांथ सारंगम्, मेसर्स फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी, जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा
34.	सुश्री विजया लक्ष्मी कन्द्रेगुला, मेसर्स फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी, जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा
35.	श्री जगदीश कोडाली, मेसर्स विमता लैबज लिमिटेड, हैदराबाद
36.	श्री नगेंद्र बी. एस., मेसर्स गणेश कंसल्टेंसी एंड एनालाइटिकल सर्विसिज, मैसूर
37.	श्रीमति कौशल्या मुरुगाकनी, मेसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीयूवी-नोर्ड ग्रुप), बंगलौर
38.	श्री अमिताभ पांडे, मेसर्स निर्यात निरीक्षण परिषद्, कोची
39.	डॉ. बी. विजय कुमार, मेसर्स निर्यात निरीक्षण परिषद्, कोची
40.	श्री जितिन सी.आर, मेसर्स जियोकेम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, अरुर, केरल
41.	डॉ. गिल्स पी. एस, मेसर्स इंटरफील्ड लैबोरेटरीज, कोची

42.	सुश्री अनु एंटनी, मेसर्स इंटरफील्ड लैबोरेटरीज, कोची
43.	सुश्री स्वप्ना सुकुमारन्, मेसर्स एसईए लैब, एलिपी
44.	डॉ. सथेश कुमार अन्नामलाई, मेसर्स बयूरो वेरिटास कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स सर्विसिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
45.	सुश्री कविथा कुमारी पी., मेसर्स सी इ पी सी आई लैबोरेटरी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, कोल्लम
46.	डॉ. डी सत्या नारायणन्, मेसर्स चेन्नई मीटेक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
47.	श्री एस. त्यागराजन्, मेसर्स चेन्नई मीटेक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
48.	श्री एस. श्रीनिवासा गोपालेन्, मेसर्स चेन्नई मीटेक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
49.	श्री राजेंद्रकुमार एन्., मेसर्स चेन्नई टेस्टिंग लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
50.	श्री के. कार्तिकियन्, मेसर्स सी वी आर लैब्स (पी) लिमिटेड, चेन्नई
51.	श्री अनूप चन्द्र आई आर, मेसर्स निर्यात निरीक्षण परिषद्, चेन्नई
52.	श्री सोमनाथ दास, मेसर्स निर्यात निरीक्षण परिषद्, चेन्नई
53.	सुश्री मुरुगेशवरी के., मेसर्स मोनार्च बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
54.	श्री रमैयां रमर, मेसर्स साइंटिफिक फूड टेस्टिंग सर्विसिज (प्रा) लिमिटेड, चेन्नई
55.	श्री टी. सैमुअल पॉल प्रसन्ता, मेसर्स टीए लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
56.	श्री गणेश पांडी, मेसर्स इंटरस्टेलर टेस्टिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
57.	श्री अभिरूप गुहा, मेसर्स एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालाइसिस सेंटर लिमिटेड, कोलकाता
58.	सुश्री नंदिता दास, मेसर्स मित्रा एस के प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
59.	सुश्री पाएल डे, मेसर्स मित्रा एस के प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
60.	सुश्री मौसमी सेनगुप्ता, मेसर्स मित्रा एस के प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता

2. खाद्य विश्लेषक के रूप में उपर्युक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं
- I. खाद्य विश्लेषक के रूप में काम करने के लिए उन्हें एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा/भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - II. वे अपना वेतन/मेहनताना अपने-अपने संगठन से लेना जारी रखेंगे।
 - III. उनकी सेवा शर्तें उनकी अपनी खाद्य प्रयोगशालाओं/संगठनों द्वारा शासित होती रहेंगी।
 - IV. उन्हें उक्त खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006/नियमों/विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित और निर्धारित खाद्य विश्लेषक के कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त किया जाता है।
 - V. वे खाद्य वस्तु के नमूने का विश्लेषण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006/नियमों/विनियमों के अनुसार करेंगे अथवा कराएँगे।
 - VI. वे एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पालन करेंगे।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असाधा./207/18]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2018

F.No. 13016/01/2017-QA.—In exercise of the powers conferred under sub section 5 of section 10 read with section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), Food Safety and Standards Authority of India (hereinafter referred as FSSAI) hereby appoints the following persons as Food Analysts, for the purpose of performing functions under the said Act and Rules/ Regulations made thereunder with all India Jurisdiction:

S.No.	Name of the Analyst & Name of the Laboratory
1.	Ms. Nidhi Gupta, M/s. Avon Food Lab Private Limited, Delhi
2.	Mr. Satish Chandra Joshi, M/s. Choksi Laboratories Limited, Panchkula
3.	Ms. Renu Singh Eurofins Analytical Services India Pvt. Ltd., Gurugram
4.	Ms. Rita Singh, M/s. Fare Labs Private Limited, Gurgaon
5.	Mr. Harvinder Singh Matharu M/s. Interstellar Testing Centre Pvt. Ltd., Panchkula
6.	Mr. Gulveer Chaudhary M/s. National Collateral Management Services Ltd, Gurgaon
7.	Mr. Balbir Singh, M/s. Idma Laboratories Ltd, Panchkula
8.	Ms. Ravneet Kaur Sidhu, M/s. Punjab Biotechnology Incubator, Mohali
9.	Mr. Amit Agarwal, M/s. Punjab Biotechnology Incubator, Mohali
10.	Mr. Priyesh Hasamukh Amin, M/s. Accurate Laboratory, Ahmedabad
11.	Mr. V.R.Narendra, M/s. Analytical and Environmental Services, Baroda
12.	Mr. K.A.Patel, M/s. Analytical and Environmental Services, Baroda

13.	Mr. K.N. Gautam, M/s. Analytical and Environmental Services, Baroda
14.	Mr. Hemal Ratishbhai Darji, M/s. Gujarat Laboratory, Ahmedabad
15.	Dr. Ashok Kumar Nikam, M/s. Cali – Labs Private Limited, Bhopal
16.	Mr. Pradeep Kumar Tiwari, M/s. QTTL Lab Private Limited, Indore
17.	Dr. Aparna Sunil Pharande, M/s. Ashwamedh Engineers & Consultants, Nasik
18.	Shri. Ninad Arvind Soundankar, M/s Ashwamedh Engineers & Consultants, Nasik
19.	Ms. Amruta Ramchandra Sutar, M/s. Bee Pharmo Labs Pvt. Ltd, Thane
20.	Mr. Vipul Mahendrakumar Raval M/s. Bee Pharmo Labs Pvt. Ltd, Thane
21.	Mr. Bal Shantaram Prabhu, M/s. Doctor's Analytical Laboratories Private Limited, Mumbai
22.	Ms. Sujata Jitendra Chivate M/s. Envirocare Labs Private Limited, Mumbai
23.	Mr. Meenal Chetan Satghare Equinox Labs Pvt. Ltd. Navi Mumbai
24.	Mr. Anoop Singh Sengar, M/s. Export Inspection Agency, Mumbai
25.	Mr. E Arul, M/s. Export Inspection Agency, Mumbai
26.	Dr. Prakash Chandra Gupta, M/s. Export Inspection Agency, Mumbai
27.	Mrs. Sushma Mahesh Thorat, M/s. Food Hygiene and Health Laboratory, Pune
28.	Mr. Rajendra Ramchandra Naik, M/s. Food Hygiene and Health Laboratory, Pune
29.	Mr. Digvijay Sabaji Sawant, M/s. Geo-Chem Laboratories Private Limited, Mumbai
30.	Mr. Abhay Raghunath Agnihotri, M/s. Pune Municipal Corporation Quality Assurance Laboratory, Pune
31.	Mr. Ravindra Chiman Vaidya, M/s. Pune Municipal Corporation Quality Assurance Laboratory, Pune
32.	Mr. Arun B. Sarjoshi, M/s. Qualichem Laboratories, Nagpur
33.	Mr. Sasikanth Sarangam, M/s. Food Testing Laboratory, Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada
34.	Ms. Vijaya Lakshmi Kandregula, M/s. Food Testing Laboratory, Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada
35.	Mr. Jagadeesh Kodali, M/s. Vimta Labs Limited, Hyderabad
36.	Mr. Nagendra B.S, M/s. Ganesh Consultancy & Analytical Services, Mysore
37.	Mrs. Kausalya Murugakani, M/s. TUV India Pvt. Limited (TUV-NORD Group), Bangalore
38.	Mr. Amitabh Pandey, M/s. Export Inspection Agency, Kochi
39.	Dr. B. Vijay Kumar, M/s. Export Inspection Agency, Kochi
40.	Mr. Jithin C.R, M/s. Geochem Laboratories Pvt. Ltd., Aroor, Kerala
41.	Dr. Gils P.S, M/s. Interfield Laboratories, Kochi

42.	Ms. Anu Antony, M/s. Interfield Laboratories, Kochi
43.	Ms. Swapna Sukumaran, M/s. SEA Lab, Alleppey
44.	Dr. Satheshkumar Annamalai, M/s. Bureau Veritas Consumer Products Services India Private Limited, Chennai
45.	Ms. Kavitha Kumari P. M/s. CEPCI Laboratory & Research Institute, Kollam
46.	Dr. D. Sathiya Naryanan, M/s. Chennai Mettex Lab Private Limited, Chennai
47.	Mr. S. Thiagarajan, M/s. Chennai Mettex Lab Private Limited, Chennai
48.	Mr. S. Srinivasa Gopalane, M/s. Chennai Mettex Lab Private Limited, Chennai
49.	Mr. Rajendrakumar. N, M/s Chennai Testing Laboratory Private Limited, Chennai
50.	Mr. K. Karthikeyan M/s. CVR Labs (P) Limited, Chennai
51.	Mr. Anoop Chandra IR, M/s. Export Inspection Agency, Chennai
52.	Mr. Somnath Das , M/s. Export Inspection Agency, Chennai
53.	Ms. Murugaeswari K M/s. Monarch Biotech Pvt. Ltd, Chennai
54.	Mr. Ramaiyan Ramar, M/s. Scientific Food Testing Services (P) Ltd., Chennai
55.	Mr. T. Samuel Paul Prasanna, M/s. TA Labs Private Limited, Chennai
56.	Mr. Ganesh Pandi, M/s. Interstellar Testing Centre Private Limited, Chennai
57.	Mr. Abhirup Guha M/s. Edward Food Research and Analysis Centre Limited, Kolkata
58.	Ms. Nandita Das M/s. Mitra S.K. Private Limited, Kolkata
59.	Ms. Payel Dey M/s. Mitra S.K. Private Limited, Kolkata
60.	Ms. Mousumi Sengupta M/s. Mitra S.K. Private Limited, Kolkata

2. The above mentioned appointments as Food Analyst are subject to the following conditions:

- i. No remuneration shall be admissible/ paid to them by FSSAI for working as Food Analyst.
- ii. They shall continue to draw their salary/emoluments etc from their respective organization.
- iii. Their conditions of service shall be governed by their respective food laboratories/ organizations in which they are working.
- iv. They are appointed for the purpose of performing duties of Food Analyst as required and stipulated under the said Food Safety and Standards Act, 2006 /Rules /Regulations.
- v. They shall analyze the sample of articles of food or cause to be analyzed the samples as per Food Safety and Standards Act, 2006 /Rules / Regulations.
- vi. They shall comply Orders/ Directions issued by FSSAI time to time.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./207/18]